

# शहरी टिकाऊपन या स्वावलंबन 93 (जारी)



बेंगलूरु, कर्नाटक की काईकोड्रहल्ली झील सामुदायिक सरगर्मियों के माध्यम से पुनर्जीवित की जा चुकी है।



रेनबो ड्राइव कॉलोनी, बंगलूरु में स्थित एक जल संचय टंकी।

महाराष्ट्र स्थित पुणे शहर में बजट आवंटन की निर्णय प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण का एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। यहां के नागरिकों ने खुद यह तय करने का हक कुछ हद तक हासिल किया है कि टहलने और साइकिल चलाने, खेल के मैदान और बाग-बगीचे बनाने, कचरे और पानी का उपचार करने, बस स्टॉप्स बनाने, वृक्षारोपण करने आदि सहित कौन-कौन सी शहरी आवश्यकताओं पर कहां, कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए।

सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (सीईई) द्वारा जारी किए गए इस पोस्टर (दाएं) में सहभागी बजट की मासिक प्रक्रिया का ब्यौरा दिया गया है।

कुछ साल पहले तक बेंगलूरु शहर में स्थित काईकोड्रहल्ली झील भी देश भर के शहरी जलाशयों के सामने पेश आ रही बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही थी। इनमें झील के किनारे पर खड़ी की जा रही इमारतों की घुसपैठ, झील में कचरा फेंकने और त्यौहारों के दौरान धार्मिक सामग्री को पानी में प्रवाहित करने जैसी समस्याएं प्रमुख थीं।

मगर २००६ की शुरुआत में अलग-अलग पृष्ठभूमि वाले नागरिकों, निजी दाताओं और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर इस झील को पुनर्जीवित करने के लिए उसकी गाद की निकासी और धार्मिक गतिविधियों के लिए वैकल्पिक जलाशयों के बंदोबस्त जैसी गतिविधियां शुरू कीं। अब काईकोड्रहल्ली आसपास के गांवों के लिए चारे का स्रोत है, शहरी सैलानियों के लिए सैर की जगह है और असंख्य पशु-पक्षियों के लिए बसेरा है। यह सफलता कभी झीलों के शहर के नाम से मशहूर रह चुके बेंगलूरु में जल संसाधनों की शृंखला को बहाल करने के एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

इस अभियान के तहत इस बात को मान्यता दी गई है कि झीलों के बचाव की कोशिशें सबसे पहले गंदे पानी और कचरे के उद्गम यानी हमारे घरों, बस्तियों और दफ्तरों से ही शुरू होनी चाहिए। फलस्वरूप, अब बेंगलूरु स्थित ३०० से ज्यादा परिवारों वाली रेनबो ड्राइव कॉलोनी के प्रत्येक घर में वर्षा जल का संचय किया जा रहा है, गंदे पानी का उपचार और रीसाइक्लिंग की जा रही है, गीले कचरे की कम्पोस्टिंग की जा रही है और ठोस कचरे की रीसाइक्लिंग की जा रही है। यह प्रयास खुद यहां के निवासियों ने शुरू किया था और आज भी मिल-जुल कर चला रहे हैं।

Participatory Budgeting in Pune		
Pune Municipal Corporation makes a separate allocation of Rs 50 lakhs per electoral ward for citizens to make suggestions for works to be done in their ward.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Provision introduced in 2006 and implemented every year since then</li> <li>Budget allocated for such works is 1-2% of the total municipal budget</li> <li>Type of works eligible: Footpaths/bicycle tracks, Playgrounds, Gardens, Signs, Bus stops, Traffic lights, Streetlights, Toilets, Waste, Water, Sewage, Roads and Others.</li> </ul>		
*Centre for Environment Education (CEE) Urban Programmes Group is working with PMC and citizens group in Pune to evolve such improvements to PB processes.		
Month	Current Budgeting Process	Additional Proposed elements in Budgeting Process*
April	Pune Municipal Corporation publishes its budget on website	Budget presentations / discussions on local cable, through newspapers and at ward level
May	Printed Budget book publicly available	Social audit of works done in previous year Participatory needs assessment
Jun	Administrative and financial approvals for proposals which are not affected by monsoon	Development of proposal ideas for PB
July	Tenders issued for works to be executed in current year. Advertisement about Participatory Budget inviting citizens suggestions for works for their neighbourhoods	Monitoring of tenders issued for PB works to be executed in the current year
Aug	Re-allocation of budget (Financial half year) Last date for citizens to submit PB forms	Deliberative meetings at neighbourhood level on proposals for PB
Sept	PrabhagSamiti (Wards Committee) meeting for shortlisting and approval of projects/ works suggested by citizens under Participatory Budget process As above	Prioritization of proposals for PB through an open exhibition, deliberation and voting at Prabhag (electoral ward) level
Oct	Draft Budgets by Administrative Ward Offices including citizens suggestions (those approved by Wards Committee) submitted to PMC Accounts Dept	Prabhag Samiti meetings and publication of minutes with reasons for selection/ rejection of proposals through PB process
Nov	Municipal Commissioner's Budget presented. Has a special section for works approved under PB	Children's Day announcement of relevant works
Dec	PMC Standing Committee's Budget presented (revised version of Municipal Commissioner's Budget)	World Disability Day announcement of relevant works
Jan	General Body of PMC debates and approves the Budget accepted by Standing Committee before 31st March	Monitoring of budget revisions by Municipal Commissioner and General Body to track inclusion of PB works
Feb		Discussions on Draft Budget in public meetings, media.
March		Women's Day announcement of relevant works